

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, गुरुवार, जुलाई 10, 1980/आषाढ़ 19, 1902
No. 133] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 1980/ASADHA 19, 1902

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 26-आई टी सी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1980

विषय : सीधे भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी ऋण से किए गए भुगतान के
समतुल्य रुपए की वसूली के लिए मिश्रित दर की गणना करने की विधि।

मिसल सं. आई पी सी/(सामान्य, 150)/वा. 2/75.—वाणिज्य मंत्रालय
आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पीएन)/70 दिनांक
17 जनवरी, 1976 और सार्वजनिक सूचना सं. 109-आई टी सी(पी एन)/74 दिनांक
3 अगस्त, 1974 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार सीधे भुगतान
प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी ऋण और साख से किए गए भुगतान के संबंध में आयातकों
से समतुल्य रुपए की वसूली के लिए विनिमय की मिश्रित दर की गणना करने की
विधि निर्धारित की गई है।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा निर्धारित सभी मुद्राओं के सम्बन्ध में 4 दशमलव तक समतुल्य रूप की गणना की जानी है और शेष आंकड़ों को दूसरों दशमलव पर अगले उच्च पूर्णांक पर पूर्ण किया जाना है किन्तु यह जापानी येन और इटैलियन लीरा को छोड़कर होगा जहाँ तीसरे दशमलव पर अगले पूर्णांक के लिए आंकड़ों को पूर्ण किया जाना है।

3. बेल्जियम फ्रैंक के मामले में तीसरे दशमलव पर पूर्ण आंकड़ा बनाने की विधि को लागू करने का प्रश्न इस मुद्रा की निम्न इकाई मूल्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय से विचाराधीन है। अब यह निश्चय किया गया है कि उक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 17-1-1976 में निहित व्यवस्थाओं में आंशिक आशोधन करने के फलस्वरूप बेल्जियम फ्रैंक के मामले में मिश्रित दर की गणना भी 4 दशमलव तक की जानी चाहिए और तीसरे दशमलव पर अगले पूर्णांक के लिए आंकड़ों को पूर्ण किया जाना चाहिए।

4. यह इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

मणि नारायण स्वामी, नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 26-ITC(PN)/80

New Delhi, the 10th July, 1980

Subject : Method of calculation of the composite rate for recovery of rupee equivalent in respect of payments made from foreign loans under direct payment procedure.

File No. IPC//Genl. 150/Vol. II/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce, Import Trade Control, Public Notice No 8-ITC(PN)/76 dated 17th January, 1976 and Public Notice No. 109-ITC(PN)/74 dated 3rd August, 1974 in which the method of calculating the composite rate of exchange for recovery of rupee equivalent from importers in respect of payment made from foreign loans and credits under direct payment procedure has been prescribed.

2. As stipulated in the aforesaid Public Notices, the rupee equivalent is to be calculated upto 4 decimal places and the resultant figure is to be rounded off at the 2nd decimal place to the next higher integer in respect of all currencies, except Japanese Yen and Italian Lira in which cases the rounding off is to be done at the 3rd decimal place to the next higher integer.

3. The question of applying the method of rounding off at the 3rd decimal place in the case of Belgium Franc has been under consideration for sometime in view of low unit value of this currency. It has now been decided that in partial modification of the provisions contained in the aforesaid Public Notice dated 17-1-1976, the composite rate in the case of Belgian Franc should also be calculated upto 4 decimal places and the rounding off done at the 3rd decimal place to the next higher integer.

4. This will have effect from the date of issue of this Public Notice.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports